



Ref: RailTel/Sectt/21/SE/S-16

Date: June 26, 2021

लिस्टिंग विभाग	कॉर्पोरेट संबंध विभाग,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग,
'एक्सचेंज प्लाजा', सी-1, ब्लॉक जी,	पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, किला,
बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई),	मुंबई - 400 001
मुंबई - 400 051	
To Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	To Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Symbol- RAILTEL	Scrip Code- 543265

Sub: Submission of Newspaper Publication regarding Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and financial year ended 31st March, 2021.

Dear Sir/Madam,

Copy of advertisement published in Newspaper (English and Hindi daily) in relation to Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter and financial year ended 31st March, 2021 as approved by the Board of Directors in their meeting held on 25th June, 2021 are enclosed herewith for your information and record. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.railtelindia.com

2. Please take note of the above information on record.

धन्यवाद,

सादर,

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

\$



जे एस मारवाह

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या – एफ सी एस 8075

Encl: As above रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) RailTel Corporation of India Ltd. (A Government of India Undertaking) CIN: U64202DL2000GOI107905

My India

Emergency's 'dark days' can never be forgotten, says PM hold another meeting

NEW DELF: Prime Minister Narendra Modi on Friday attacked
the Congress on the 46th anniversary of Emergency, imposed
from 1975 to 1977, and said that
'the dark days of Emergency
can never be far gotter,
can ever be far gotter,
can ever be forgotten. The period from 1975 to
1977 witnessed a systematic
destruction of institutions. Let
us pledge to do everything possible to strengthen india's demorated spirit, and live up to the
values each rised on the orate
destruction of the declaration of the state of Emergency
"This is how Congress trampied over our democratic either
we remember all those greats who resisted the Emergency
and protected Indian democracy," the PM wrote in another
The Emergency was immostly.



Narendra Modi

Narendra Modi
were imposed on the fundamental rights of people.
Think home minister that the mean and period of "brutal tortures" and "ruthless rule of 21 months" to "quell the voices against one family. "Energency imposed to quell the voices against one family is a dark chapter in the fact that the country men who bught releasing the protection of the Constitution and democracy of the country while suffering the brutal tortures of the ruthless rule for 21 months, he said.
Singh, in a fiveet, said. "Emergency's known sa' dark chapter in the history of Indian

Genoracy Te manner in which the Constitution was misused to attack the democratic traditions of the country can traditions of the country can that ens is fresh in the memories of all of us.

Responding to the criticism, senior Congress leader Shashl Thatror attacked the BIP-ruised central government and wrote central given ment and wrote on Twitter, "We are suffering a to harder for the contraint of the contr

oggress at less' during this period of national emergency? Congress poleoperson Gaupointess of EP by procelabout democracy as India is going through a "Modigency" since the last? years which have witnessed "trampling down of all the democratic institutions." All the institutions have been creded, Parlament has lost its credibility and even the piess for protecting the democratic ment as anti-national acts," Vallabib said.

India, China agree to

Interespin destantment on NEW DEH/VBEUMG: India and China agreed on Friday to hold the next meeting of senior military commanders as soon as possible to discuss complete disengagement at friction points on the Line of Actual Conred (LACV while working to maintain stability on the ground.

ground.

This was a proper of the any tangible of the only tangible outcome from a virtual meeting of the Working Mechanism for Consultation and our offinism, which resulted in what the external affairs ministry described as a "frank exchange of views" on the situation along the LAC in the western sector. The last meeting of the military commanders at the Chushul-Moldo berder meeting noise.

commanders at the Chushul-Moldo border meeting point was heldon April 9.
Following a drawdown of troops and armoured units from the north and south banks of Pangong Lake in Feb-ruary, India and China haven't made any headway on disen-

gagement and de-escalation at other friction points such as Depsang. Gogra and Hot Springs. The two sides have also engaged in a war of words this week, blaming each other for the year-long standoff on the LAC.

On Thursday, India blam China's actions of amassi

On Thursday, India blamed China's actions of amassing troops in border areas and attempting it on unilaterally change the status quo on the LAC for the standoft, and dismissed Beiging's contention that New Delhis's policies were to blame for the ensions. Poliowing the WMCC meeting, a statement issued by the Theorem of the WMCC meeting, a statement issued by the ension commanders meeting at marry date to achieve the objective of complete disengagement from all the friction points along the LAC in the gagement from all the friction points along the LAC in the Western Sector in accordance with the existing bilateral agreements and protocols."

This was the eighth round of diplomatic talks under the WMCC mechanism since the standoff began in Maylastyear.

COVID TRACKER

30.182,462

314.372.466

7,125,866



Bank guard shoots at man after argument over mask

LUCKNOW: A 35-year-old man was injured on Friday after a secu-rity guard ata bank fired at himfor allegedly trying to force his way inside without wearing a mask in Ultar Pradesh's Bareilly, police said

aid.
The man, identified as Rajesh

Railway— came to the Bank of Bands office at the Chil Lines areain the turnar count H28mm. Mishin denied Railmore entry to the hank hecusine he wasn't wear-ing a mask, triggering a heated argument behove the wasn't was-ring a mask, triggering a heated argument behove the work. Soon after, Pathore again tried to enter the hall without a mask, after which Mishira— using his after which Mishira— using his leg, said secino superintendent of police, Barelly, Rohit Singh Saj-wan. "We have arrested the guard and Rathore has been hospital-ieds.' Sajona said.

Navy deployment after Galwan clash showed India was ready, says Rajnath

destrict hospital in the town, where was destrict hospital in condition is said to be stable.

The guard. Keshav Prasad middly a Reinhard hospital city, said superinsender of joiler (oldy) Ravindra Kumur.

According to the police, Rationer-ameniphysee of the Northern

ades, and pushed the bilaseral rela-tionship to breaking point.
"Indian Navy remains poised and comhat-ready to tackle any challenge," the ministers said.
His comments come art a time when the Indian and Chinese comies are necestrating to next.

INDIAN RAILWAYS OVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) IISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)

CORRIGENDUM NO. 1

where gonaturations com
MEW DELH!: Defence minister
Rejunath Singhon Pridays and that
the Indian Navy's proactive forword deplyoment after the Galniese People's Liberation Army
PLA) incestered Liabbinstrom the Committee of the Committee of

to visit Ladakh

to visit Ladakh
MEW DEM!. Defence
minister Rajnath Singh
will head to Ladakh on
Sunday for a two-day visit
usation and road projects
in forward areas, officials
familiar with the matter
said on Fidday. He will be
briefed on the situation
Indian and Chinese
armies are negotisting
discapagement off troops,
officials added.

HTC



DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (Formerly Delhi College of Engineering) Shahbad Daulatour, Bayarina Road, Delhi-110042

NOTICE

MBA (Executive) weekend programme admissions Delhi School of Management are in process and ask late of submission of online applications has been on anded till July 1, 2021. For more details,

Registrar



AT AIMS, BRIPATA UN SCHULA CONTROL (MEGISTATION AIMS Bropails a persive installate of historia liporationa (Megistational Montrol (Megistational Medistrict) that Ministry of Health & Family Welfers, Cooverment of Incide under the Dedical Medistrict assessment of Medistrict and Medistrict and Control (Medistrict) and Medistrict and Control (Medistrict) and Medistrict and Medistri

SI.	Name of Pestidiscipline	Group	Pay Level (7° CPC Pay Matrix)	No.of Posts		
1	Finance & Chief Accounts Officer	'A'	Level-11	01 (One) Post		
	Librarian Selection Grade (Sr. Librarian)	'A'	Level-11	01 (One) Post		
3	Assistant Administrative Officer	B.	Lovei-07	02 (Two) Post		
4	Assistant Accounts Officer	'B'	Level-07	02 (Two) Post		
	Chief Pharmacist	.B.	Level-07	01 (One) Post		
6	Office Superintendent	.B.	Lovel-06	01 (One) Post		

PUBLIC NOTICE

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE Continuity



INDIAN INSTITUTE OF MASS COMMUNICATION

ARUNA ASAF ALI MARG, NEW JNU CAMPUS NEW DELHI-110067

E-TENDER NOTICE

Construction of temporary accommodation (Structure) as Annexure to D.G Bungalow at IIMC campus New Delhi" as per the tender schedule uploaded on CPP portal http://eprocure.gov.in/eprocure/app and website of the Institute www.iimc.gov.in

davp 22103/11/0002/2122



1,33,72 1,08,063 42,982 39,263 1,37,782 1,12,805 19,718 23,406 Net profit / (loss) (before tax & after exceptional ite 18,476 14,107 14,160 13,334 32,094 0.85 0.71

Notes: 1.

The above standalone and consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25th James 2281. The Stantony-Auditors of the commission have conducted Audit of the financial results for the Dusters and ayes arendd 51 still Marke 2281.

Part for the PY 2021 has been arrived at after considering provision for expected credit boss (ECL) of Rs. 5316 Labsh in comparisation flast 1251 Labsh for the PY 2020.

The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard Intell Apis and infection 130 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules themsudder and in terms of Regulation 52 of the Comparise Art. 2017 seal with relevant rules of the Standard St

This PDF was originally uploaded To The English Newspaper L- Banna SA (https://t.me/English Newspaper L Banna)one else Backup chennal @NEWS Backup L Banna

4. The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the \$881 (Listing obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015, as amended. The fill format of the advanced results are available on the Stock Exchanges website of \$85 (even. beained, assembergardes), \$85 cm.

For and on behalf of RailTel Corporation of India Limite

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD

Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office indick Tower - 2, East Kldwai Nagar, New Dell' Phose: 011-22900600, Fax: 011-22900699 Website: www.rallelindia.com: E-mail: cetteralisindia.com: Corporate Mentity

Peeyush Bairwa Kamal Kumar Deputy Director of Education Distt. West-B, G-Block, Vikaspuri, New Delhi-18

ग्रामीण क्षेत्रों से निकलेगी अर्थव्यवस्था में तेजी की लहर

उम्मीद

नई दिली हिन्दुस्तान ब्यूरो

एफएममीजी कंपनियों को उम्मीद है कि कोरोना को दूसरों लहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से बंपर मांग निकलेगी यह सुस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगी।

कंपनियों का मारना है कि इस साल अच्छे मानसून पूर्वानुमान समेत केंद्र सरकार द्वारा नवंच्यर तक मुफ्त राशन येजना का विस्तार करना, मनरेगा के जरिये गांवों में रोजगार की मनरना क जारय गांवा में राजगार का व्यवस्थ, फरालों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी आदि गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।

दसरी लहर में अधिक मांग गिरी



शहर के बाजार के बराबर ग्रामीप बाजार

वाहन कंपनियां भी काफी उत्साहित

काफी उत्सादित इस साल अध्ये मानुस्तर रहेने और रपरसाधी में बहारीयों से बाइन प्रामित्या भी उत्सादित है। स्थानियां सा कहान है के दिवर, पोक्टियां माने छोटी कार की मान गांवी में तीन से बड़ी है। इसके कशी हम उत्साद स्तात है हैं अगरी मानित ने सा राज्यों की विकास में सा हमें बाद में की विकास में सहसी। अह दिव पहाली लाह में दिवर माने प्रदेश की कई हिस्सी में देखें की जिस माने माने का अपन, बाहर, बात जिस ने को मिला का अपन, बाहर, बात जिस ने को मिला का अपन, बाहर, बात जिस ने को मिला का अपन, बाहर, बात की स्तात कर की बाहर कर से बाहर कु प्राह्मियां की विकास माने की हिस्सीयों 50 प्रोत्सरी से अधिक रही है।

ई-वे बिल जनरेशन में फिर ये तेजी

पिछ्ट से तीजी इसरी बाद में साक मिनने के बाद राज्यों द्वारा लोकडाउन हटाने से एक यह फिर से ई-डे किर जानरेवाम में रेकी आई है। 39 के सीवार क्रम से ई-डे किर जानरेवान में एकडान से उज्जान देखने की सिक्त है। जीएसरिएम के आवार्त्र के अनुसार, टेनिक ओसार है में किए जानरेवान जून के काश्मे पाडसारों में 1.6.1 मिरियम में बहुत्य 20 जून तोज गैरियम में बहुत्य स्थानरेवाम कर देशक औरचा 1.28 मिरवान बार शिर्ण के अनुसार 1.29 मिरवान बार 1970 की अनुसार, 20 जून तक 33.7 मिलक ई-वे बिल का जनरेशन हो गया था।

र्डएसआर्डसी के 10

लाख नए सदस्य

र्स्ड दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा नि

बिजनेस आपतक

ताज दनिया का सबसे मजबत होटल ब्रांड

न्हें दिल्ली। टाटा समृह की हॉस्पिटीलटी इकाई ब्रेडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएक्सीएल) ने शुक्रवार की कहा कि उसके ताज ब्रोड को दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रोड माना गय है।ब्रोड फाइनेंस की होटल्स-50 2021 पियोर्ट के मुताबिक ताज अन्य उपलाधिवयों के अलावा महामारी में पेटा हुई चुनीतायों के बावजूद माजबुत खड़े रहने बाले सबसे मजबुत बोड़ की मुची में शीच परा। ताज बोड़ 2016 के खड़ पहली बार रीकेंग में शामिल हुआ। तब उसने 38वां स्थान हासिल किया था।

पीएमरी बैंक पर प्रतिबंध इविवटी मेनिया दो राल दिसंबर तक बढ़ा

पुष्पं रिजर्च के के मुक्तवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपेटिय (पीएमसी) बैंक पर रियामकीय प्रबंधी की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर विशंबर 2021 तक कर दिया। बेंट्रम फाइनीशिक्त छारा पीएमसी के अधिमहरण को पुरा करते के लिखे वह करना उताया गया है।

करोड का बोनस देगी

नई दिल्ली। बजाज आलियांज लाइफ ने अपने पॉलिसमेधारकों के लिए 1,156 करोड़ रुपये के बोनस का एलान किया है।इसमें 315 करोड़ रुपने का एक गुश्त थिशेष बोनस भी शामिल है, जो नियमित

न्हें स्टिली। नियंत्र सलाहकार कंपनी इंक्सिटी मेनिया फार्डनेवल एडलाइनडी और उनके मालिक ऑकत गोयल को सेखी ने अनाध्यक्त नियंत्र सलाह पर दो साल के लिए। इंक्सिटीय कर दिया है और नियंत्रकों की धनराशि व्यस्स करने के लिए। उनका है।

के लिए प्रतिबंधित

बनाज आलियांन १,१५६ ओएनजीसी को 6,734 करोड़ रुपये का मुनाफा

नई दिल्ली। ओएनजीसी ने कड़ा कि मार्थ तिमाडी के वीरान उसका सुद्ध लाभ 5,734 करोड़ रुपये रहा। 2020 में कंपनी को 3,214.41 करोत् रूपये का चाटा हुआ था। जनवरी-मार्च में उत्पादित और बेचे गए कच्चे तेल के प्रत्येक बैरल के लिए 58.05 डॉलर का मुल्यमिला

एसबीआई नई लहर सेनिपटने में ज्यादा सक्षम

पुंची। मार्ताव स्टेट कैंक के जियानेन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि कैंक ने कोशिय 19 नहामार्गी से सामने आई पूर्वित्ती के लिहाज़ से सुद्र को स्वार लिहाक़ के को लिहा के लिहा में लिहा के सिक्त के लिहाज़ से सुद्र को खार लिहाक़ के को लिहा के लिहा के लिहा में लिहा के स्वार के बोहत स्वार्ति में हैं। उन्होंने कहा कि कुमा के बुद्ध पूर्व के लिहाक़ से सफ़्त किस्ती में हैं। बैंक अपने पोर्ट-जीविका में निविध्ता लांस पर्व नेसिक्सों पर अंकुश रखने के जीवन से बेहता बुद्ध सात्र बीच में प्राण देने के अवसर लहातिशा

संसद के मानसून सत्र में फैसला हो सकता है, ज्यादा संख्या में अप्रेटिस स्टाफ रख सकेंगी कंपनियां

अप्रेंटिस कानून में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली | प्रशांत.के.मंदा

नौकरी के वैदान प्रशिक्षण (अप्रैटिसशिप) से बादे पैमाने पर देश के युवाओं का कीशल विकास होगा। इसे देखते हुए अप्रेटिसिशन के लिए सरकार कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

संस्थात कर तोत् । म वड़ करणा नग तेवारी कर तोते हैं।
सूक्षेत्र कर तोते हैं।
सूक्ष्म कारता है कि सरकार संसर के मानवून सम्म में अवीरिक्त कानून में स्वत्ताव से जुड़े किटा को मान्दी के शिक्ष लाकार से हुए की कारून है कि कीशल कितार को साम कारता है कि कीशल कितार कर तो की हम कुछ कानून में कार्यान के तो कि कीशल कर तो की हम कुछ कानून में कार्यान की ने उन्हों स्वतार के में साम नार्यान कर ता है। इस कार्यान के अभी एस स्वतार के ने कुछ कार्यान में कार्यान की ने उन्हों स्वतार कर के अभी एस स्वतार के ने कुछ कार्यान में कार्यान से कंपानियों को कुछल काममार तैयार

करने में सङ्क्षियत होगी। साथ ही कर्मचारी पर खार्च घटाने में भी मदर फ्लेगी।

ा। उल्लेखनीय है कि बजट में वित्त

अल्लेखनेय है कि बजट में विव अल्लेखनेय है कि बजट में विव मंत्री मिलाल मोजारमण ने 3000 करीड़ रूप के आलंटन अल्लेखनार्गकाम के निए किया था। उद्योगों को अब अग्रेटिवरिएम में आमिल युवाओं के मंत्रीक्ता प्रसाद मोजार के संग्रीक्ता एक्साचेया को संभावानार क्वाच 00 में 70 इजार कुला हो निक्र के दीवन प्रोक्टका के ले होते हो। यो उपान में में के क्वाच को अग्रेटिवरिएम में प्रयोग मोजारे क्या करने महत्वा बढ़ी और वर्ष 2020-21 में 1.25 लाख प्रवास मार्जिक्ट के क्या है प्रकार का मानाम है कि नियम साल्य होने से अग्रेटिवर्गका में अग्रेटिवरिएम के स्वास्त्री के अग्रेटिवरिएम के स्वास्त्री के कि नियम साल्य होने से अग्रेटिवर्गका में कि नियम साल्य होने से अग्रेटवर्गका में अग्रेटिवरिएम के

एक साल में 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप



अधीटनशिय पहली स्तरं मैन्यूफेववरिय तक नीमित था। इसके बाद सेवा क्षेत्र का इसका विद्यास हुआ। गए कानून वे इसका पित्तर खागर और धामित्य तक करने की कोजना है। दिशांबाई का करने है कि नद बदलवों से अधिटस्थिय के हिण इस्केशिस्टम तैवार होगा और देव एक समझ में 20 लाख ने अधिटस्थिय के क्षित्र इसकेशिस्टम तैवार होगा और देव में एक समझ में 20 लाख ने अधिटस्थिय के अधिटस्थिय कर रहे होरे।

आसान होंने नियम

प्रस्तवित अधेटिन कानून में व्यक्तियां के जिए नियम काफी सरल होंगे। कई तरह की जटित नकिया से राहत के साथ दरनार्वजों वो उन्हें सहेतने की जनस्त नहीं होंगे। इसके उस्तावा विदेश में यदि कामी का कासंबार है तो उसे वहां भी अप्रेटिसशिय के लिए युवाओं को भेजने की अनुमति होगी।

साझेदारी में अपेटिसशिप

मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नृष्ट प्रस्तावित कानून में छोटी कंपनियों के लिए खार प्रावधान हो सकते हैं। इसके तहन एक स्थान पर काम करने वाली छोटी कंपनिया जन करन वाला छाटा कथानया जरूरत के मुताबिक मिलकर अमेटिसाँगय करा सकेंगी । इससे उनके खर्न में कमी अएमी।

45% तक ऊंचा वेतन से रहे अप्रेटिसहीय करने वाले युग

पुज कुल कर्मकरियं की श्रमता का आंदिस से भरना अनिवार्य होगा 3ामी नियम आग्रीहरा से काम लेने कर कंपनियों के लिए

परीक्षा नहीं देनी होगी अपेटिसशिय की प्रक्रिया से मुजरने वाले युवाओं के लिए राष्ट्रीय अपेटिसशिय सरिधिकंटर परिक्षा में बैठने की अनिवारीला खत्मकर दी जएगी। अब यह परिक्षा लल में दी बार जरूर होगे, लिक्न फांडों को

इसमें बैठने या नहीं बैठने की छूट होगी।

नर्ड ऊंचार्ड पर

नई दिल्ली एमेरी वृती आई। वेशेर किकायती उत्पाद पर होगा

रिलायस का जोर

पड़े क्रीपकल, टेर्लन्बांग और रिटेल सहित विधान-बेजों में आम का रही देश की सबसे बादी केंपनी रिलायंस इंटरहुनी के सीकार राज्यों केंपनी इंटरहुनी के सीकार राज्यों के केंप आपने तीन वर्णी में 7.5 हजार करेड़ रुप्प निष्म करते की प्रस्त संबंधित अपार आदि का बेन में निर्णायन्ति की धेलाम में इससे प्रेमें भीने के वर्णस्य की धेलाम में इससे प्रेमें भीने के वर्णस्य की धेलाम में इससे प्रेमें भीने के वर्णस्य की धेलाम में इससे प्रमान की उम्मीद की मुक्त अंबानी ने अगले तीन वर्ण में पूर्व दूर पूर्व नित्मुख्यल गुरुजी इस्तिस्य की प्रोपणा की। भीन को उनकर रहे ने किल्पालंस्स गुजातं के जामन्यत् में पांच हजार एकड़ में धीकराई अंबानों हीन एकड़ी गीमा रिलायंस एरजी का एक हिस्स रिलाप्रेस एउडी का एक हिस्सा रूक - टीप स्तेवर और गांवी में सीतन एनजी के उत्पादन से आएमा गांवी में स्तेतर एनजी के प्राटक्शन से ग्रामीण अर्थकादस्था को बल मितने की उम्मीप है। रिलाप्रेस का इरावा सीलन महिस्सूत की कीमत दुनिया में मध्यरे कम स्वत्ने का है, तांवी स्तेशनर एनजी किफायती हो।

रिलायंस सौर ऊर्जा में

चीनी वर्चस्व को तोडेगी

सेंसेवस-निपटी

मुंबई। बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार की 26 अंक उद्धलकर अब तकके नवे 226 अक उपल्पान का प्राप्त के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वैश्यक बाजार्गे में सकारात्मक रुख के बीच आईमें आईग्रीआईबैंक, एविस्मा बैंक और इस्क्रेसिस में तेजी से बाजार में

मजबूरी आई! सेरोबसा 226.04 अंक पञ्चूत होकर 52,925.04 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशानल स्टॉक एक्सचेंज का निष्टी 69.90 अंक मजबूर होकर 15,860.35 अंक

मजबूत होकर 15,860,35 अरु एर बेर हुआ। सेस्थ्य के देवरों में सर्वाधिक लाम में टाटा स्टील रही। इसके अलाग प्रकृत्सन केंक्, एराको अर्ड, आईसे आईसी आई बैंक, बराज फिनस्कों और माठति में भी अच्छी तेजी हो। इसरी दरफ, लिगांच्य तेजी हो। इसरी दरफ, लिगांच्य इंडस्ट्रीज, एनटीवीसी, एजपूरल, टाइटा और एप्रियम पेट्स स्तेत अन्य अन्योर्ध किंग्नी स्टील शेवरों में गिरावट रही।

PUBLIC NOTICE

In pursuance of Hontbe High Court. Delhil order delated \$1.07.2019 WPICC.

In 2700/270 the deed Cayward V's Ring Melvayn St. See. School & Ora
Man Najalgarth Bood, New Delhi 10056 were not present physically with
their testimonals for verification in order to determine their elipbility,
tence they are informed to contact within a week to the office of Ring
Hontson they are informed to contact within a verification to the office of Ring
Hontson they are with the see that the see tha

1	Ankita Kumari	TGT, English			
2	Praveen	TGT, Phy. Education			
3	Nandite	TGT, Science			
4	Bindumati	TGT, Hindl			
5	Pinki Yaday	TGT, Social Science			
6	Priyanka	TGT, Science			
7	Virender Sharma	TGT, English			
8	Khushboo Kapcor	TGT, Computer			
9	Priya Kumari	Asst. Teacher			
10	Mamata Kumari	Asst. Teacher			
11	Ruby Pal	Asst. Teacher			
12	Rinki	PRT			
1.3	Kusum	Asst. Teacher			
1-4	Shikha Prakash	Asst. Teacher			
1:5	Gudiya	PRT			
16	Pinki Sharma	Asst. Teacher			
17	Preeti Shukla	Asst. Teacher			
1-8	Khushbu	Asst. Teacher			
1:9	Reeva Singh	Asst. Teacher			
2:0	Lovely	Asst. Teacher			
21	Peeyush Bairwa	PRT			
2.2	Kamai Kumar	Counsellar			

प्रिंस्टर्भा कमचार उपन बामा गर्मम (इंग्स्सअईसी) द्वार संचालित सामाजिक मुख्या योजना की से अप्रैल, 2021 में 10.41 नारख नय स्टस्ट्य जुड़े। मुक्तार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से कर जानकरी मिला है। नवीनहम्म आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में इंग्सआईसी से कुला बोनस के अलावा है। यह 20वां वर्ष है, जब बोनस घोषित किया है।

1.15 क्रोड़ सदस्य गुड़े जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1.51 पिछले हित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1.51 करोड़ का था। इस प्रकार 2020-21 में प्रस्ताव्यक्ति से गुड़ने पार्कों में 2.4 प्रतिकार की पिरायट रही। ये अंकड़े पप्ट्रीय साख्यिकों कार्यालय (प्रत्यस्क्री) ह्वारा मुक्तायर की जारी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। सरकार ने कारोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोजने के लिए पिछले साल 25 साथ की रेशाय्यापी लॉकडाउन लगाया था।

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन,

(3) शेर-ओल्वई-डीएसएस-पुप-२१३-एम ई-निविदा सूचना

सम्बद्धाः हो। निकासको को इत निविध्य के लिए निविध्य बस्ताका मुख्य और बयाना चाँचिक प्रमाना को अनुमति केवल जनलाईन मुनाना विधि द्वरा, सार ई यी एस पोर्टल पर उत्संब्ध पुराचान के परीके जीने नेट कींचन, कीवट कार्ड, केविट कार्ड इत्यादी से हैं। किमान इत्यट, बैंकन केक, अस्य स्वीद हो जब के द्वारा निमुक्त पुराचान को अनुमति नहीं हैं। एन आई टी - हैंबर 3-9-0-

कार्य का नाम	विरामगाम (रहित केर तो , ६० हर्द्	।- समिखवाली (स	हिता) पुप-213 पर शमा औरवाई और टीएशए के थ 1., पद्राति पर विदुशीकरण के लिए दिकाईन, सफ 180/446	ह्ये हुए कार्यों को , 25			
बिहिंग का प्रकार	द्ध स्टेज रिवर्श आव	लन		1001 0			
निविद्या का प्रकार	खली		बिड प्रणाली	को फैक्ट पद्धति			
निविधा की अन्तिम तिथि/समय	22.07.2021 15	00	निविद्या दस्तावेज अपतोड करने की तिथि, समय	24.06.2021 17:06			
अपेकित पूर्व बिड	नहीं		बिड पूर्व पूछताछ की तिथि, समय	लागू नहीं है			
विकाधित पुल्प (राव)	58,90,40,106.3		निविद्या अनुभाग	ओएवई			
बिड सीली	प्रत्येष अनुसूचित ।	क किए एक्स दर	विशिम पुनिट				
बयाना राशि (१५)	90.00		प्रश्ताम की वैधता (दिन)	60			
बयाना राजि/बोली प्रतिपूर्ति के घोषणा प्राप्त करें	कदले क्याना राहि	। बोली प्रतिभूति	हाँ				
निविद्या दशाकेल का मूल्प (२०)	0.00		पूर्ण कारने की अवधि	15 HIE			
अनुबन्ध का प्रकार	कार्य		अनुबन्ध की संगी	खर्व			
बिह्न आएम की शारीक	06,07,2021		क्या बिड के लिए संयुक्त उपन (डे.के) पने नान्य है	हीं			
गिविवा की रैंकिंग	न्यूनतम से उत्पतम		एक्सप्रेन्डियर टाईप	कैपिटल (कार्य)			
आटो एलीमिनेशन स्टब्स एपली		el .	मिनिमम रेट आफ विकरीमेन्ट (%)	.2			
प्रारम्भिक कुलिंग आफ पीरियह (एख एक एमएम) 04:00			सबसीक्यून्ट कुलिन अन्य पेरियड (एव एक.एमएम) ००:२०				
सं.: पीआर/57/2021 (काका)	प्राहक	की सेवा में	मुस्कान के साध वेस्साइट www	e.ireps.govin देखें			

सोना ६६ रूपये नीचे, चांदी ऊपर

न्द्रं दिल्ली। दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 66 रुपये की राक्रवा का साना ठठ रुपय का मामूली गिरावट के एक रह, 509 के इति 10 ग्राम रह गता। एवडीएरुसी सिक्येरिटीज ने यह एच डाएरूसा । सक्यारटाजे न चह जानकारी दी इससे एछले दिन सेना 46,375 रुपवे प्रति दस ग्राम पर बंद

हुआ था। एनडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ट विश्लेषक (जिस) तान पटेल ने कहा, कॉमेक्स में कल तत आई गिरावट को दत्तीते हुए सोनेका चारा 66 रुपये घटकर बंद हुआ।

महंगार्ड दर ५% रहने की उम्मीद

मुंबा। युवीएस सिक्वोरिया भेडळाने के कि भारत में मुझस्पर्वेति की दर चालू विश्व वर्ष के दौरान औसतन फांच प्रतिशत रह सकती है, हालांक, इसके अधिक

सकते हैं, हालांक, इसके अधिक रहने के जोखिम पी हो। मई में उपभोचा मूल्य सुवकांक बढ़कर 6.3 प्रतिशत और श्रीक मुहस्प्रशीत 12.94 प्रतिशत के विजाई करर पर पहुँच गवा है। खादा उत्पादों की कीत्ती में बढ़ोतरी के चलते खुदरा मुझरम्पीति छह मही के उच्च स्तर पहुंच गई।

दूरसंचार और डिजिटल सोलशन्म व्यवसाय में निरतरता स्निश्चत करते हुए





	स्टॅब्डलोन				समेकित					
Parent	31 गार्च 2021 को समाप्त टिमाही (लेखापरीरीत)	31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाठी (लेखापरीक्षित)	31 नार्च 2020 को सनाप्त तिमाही (अलेखापरीवित)	31 मार्च, 2021 को समाज वर्ष (लेखापर्वेक्षित)	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (तंत्वापरीक्षित)		31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाडी (लेखापरीवित)	31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही (अजेस्वापरीक्षित)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष (लेखागरीक्षित)	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षत)
परिवातन से कुल आय	42,948	39,473	35,722	1,33,728	1,08,063	42,982	41,063	39,263	1,37,782	1,12,895
युद्ध लाम (शरि) (कर पूर्व और विशिष्ट मदे)	4,102	9,370	7,772	19,461	23,044	4,688	9,412	8,011	19,718	23,405
युद्ध लाम (हानि) (कर पूर्व और विशिष्ट मधी के उपरांत)	4,102	9,370	2,842	19,461	18,114	4,688	9,412	3,081	19,718	18,475
कर उपरांत शुद्ध लाग	2,720	6,934	2,100	14,841	13,835	2,721	6,968	2,279	14,245	14,107
बुल समग्र आव	2,942	6,862	1,599	14,160	13,334	2,943	6,894	1,778	14,364	13,606
इक्किटी शेयर पूजी	32,094	32,094	12,094	3/2,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094
जन्य इक्किटी	840			1,08,179	1,04,034				1,09,188	1,04,839
अति शेयर अव्य ईस्त्मापा तेम्लाती के लिए प्राणिकृत गत्ती)			700					ur seesali	1,711	V-10-00
(10/-% प्रति को अवित मूल्य)			- 1	4						
(m) मूल (s. में)	0.85	2.16	0.65	4.37	4.31	0.85	2.17	8.71	4.44	4.40
(a) uere (c. 4)	0.85	2.16	0.65	4.37	4.31	0.85	2.17	0.71	4.44	4.40

ज्यादा ब्याज देखकर ही बैंक का चुनाव न करें

सलाह

नई दिल्ली हिन्दुस्तान ब्यूरो

मुरक्षा के लिहाज़ से भी बैंक में पैसा मुरक्ष के लिहाज से भी बैंक में पैसा जाम करना बेहरर माजा जाता है, लिक्तिज बैंक के दिखालिया होने पर हालत मंभीर हो जाते हैं। हाल हो में पीएमसे के दुख जाने से उसमें पैसा जमा किए लोगों को करना पड़ा है। ऐसे में असर जग किसी बैंक में असना पैसा रखने जा रहे हैं कुछ बातों का साम खान कर है हैं कुछ बातों का साम खान कर है हैं कुछ बातों का साम

ख्याल रखें। विज्ञोत की का कहना है कि कभी भी बैंक में ऐस्त निवेश पर ज्यादा रिटर्न को रेखते हुए नहीं ज्यादा शिट्न को रेखते हुए नहीं ज्यादा शिट्न सक्ते पहले बैंक की विज्ञीय मजबूती, आरबीआई की सूची में बैंक का स्थान, बाज्यर में

सरकारी बैंक सुरक्षित

संस्कारी बेंक सुरक्षित 12 वर्ष प्रयान के के हैं डिल्डे साल सरकार के स्वाधित्य के कारण जाने गुर्तीक भी है। सालीं के साव डिल्डे होंगे की नरह अग पर एक वीकित मार्टी नहीं है। जा कोई अरकारी केंग्र जीवार में बेंता है, ते अरकारी केंग्र जीवार में बेंता है, ते अरकारी केंग्र जीवार में बेंता है, ते अरकार में केंग्र मिल वर्ष है। उनावार्काओं का स्था स्वर्थकत रहता है औ औडाईसीओंसी कर्य करना है। उनावार्काओं का स्था स्वर्थकत रहता है औ औडाईसीओंसी कर्य करना है।

साख और पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बैंक का एनपीए कितना है? बड़े शेय(धारक और कर्जधारक कीन हैं 7 हाल की तिमाहियों का उसका प्रदर्शन कैसा रहा है

स्थान : नई दिल्ली दिनांक । 25.06.202

प्रथमिक्यां । ज्यां के क्षेत्रकारीन और क्योंकित विशेष परिमान परिमान परिमान क्षारी हाता प्रयोधन और क्योंकित कीर क्योंकित विशेष प्रथम कर प्रथम का प्रथम का प्रथम के विद्याप्त प्रथम का अपनी के अपने के प्रथम के प्रथम के विद्याप्त प्रथम के प्

प्रमान की (विविद्या कारणाई और उक्टीकरण अंकाए) औ विविद्या जीवालों के जिल्ला कार्यों का बाद है। उत्पादक (जनक Assaulta के जिल्ला कार्यों का बाद है। उत्पादक (जनक कारणाइन कारणाइन कारणाइन कारणाइन कारणाइन प्रमादक में हैं। विद्यालय महार ने 25 पुर, 2001 की हूं अवाली बैठाव में आदित के जिल्ला कुछ करने प्रस्ता कारणा है, यह विकास किया और वि किए गुन, व अंकार प्रस्ता कारणा है, यह विकास किया और वि किए गुन, व अंकार प्रस्ता कारणा है, यह विकास किया और वि

कृते रेसटेस कॉर्पोरेशन ऑक इंडिया तिमिटेड और की और से

्, जार से हस्ता/-पुनीत चावला अध्यक्ष एवं प्रबंध निरंशक बीआईएनः ee-



Clubhouse was launched on iOS last year and recently became available to Android users; and (below) a screen grab of the Swell app.

Audio social apps: playing it by the ear

With both users and creators taking to these platforms, how do moderators and these apps ensure conversations do not get out of hand?

nitin.s@htlive.com

uring a weekly Clubhouse town hall session on 20 June, the app's co-founder, Paul Davison, made an interesting observation. Clubhouse, he said, was like a blank canvas—it was nothing without its users. Since its launch on iOS in March 2020, and its entry on the Android platform this May, millions of users worldwide have painted this canvas in different colours with their voices. The audio-only social app now has more than 25 million downloads globally, according to recent reports based on data from the app analytics firm Sensor Tower.

On Clubhouse, you can host a room—a conversation or discussion—with other users. People are discussing everything, from politics to spirituality. There are rooms on ghost stories, gender fluidity, tips on how to work smart, not hard, and even conspiracy theories. Artists are entertaining listeners through audio-only live concerts while medical experts spread the word on the coronavirus through information rooms on covid-19. Even journalists are using the platform as a news-gathering tool.

But Clubhouse is not the only name

gaining ground in this format. Facebook rolled out a live audio rooms feature this week, Spaces lets you have audio conversations on Twitter, and Spotify launched Greenroom, its social audio app, just days ago. Others trying to leverage the power of audio include Discord and Reddit.


With so many users taking to these platforms, how do these apps, and the moderators, ensure conversations do not get out of hand?

"It's something you learn along the way," says Arjun Madan, 27, a Delhi-based food and marketing consultant. "There have been rooms where things have gone sideways." Madan has more than 3,600 followers on Clubhouse. The former lawver has hosted sessions on topics relevant to his profession as well as issues such as gender identity and sex positivity. "We do like to keep the speaker panel smaller. To ensure that the conversation does not become controversial, at least in my rooms, I always give the disclaimer that we don't want to make the discussion political," says Madan. "We have to be very vigilant as moderators. I have no hesitation in reporting or blocking accounts or people who say something unsavoury. When you are on an audio social app, you are talking in a flow. It's very easy to get carried away so you have to consciously keep yourself

Each platform has stringent community guidelines for moderating content. Spotify Greenroom, for instance, does not allow hate content. Harassing other users, posting sexually explicit content or any content that incites or glorifies violence and promotes self-harm is prohibited. Clubhouse, too, has a similar set of rules that prohibit the spread of misinformation

Sudha Varadarajan, co-founder and CEO of Swell, a new asynchronous drop-in audio or voice-based social platform, says that while users have the power to moderate on Swell, moderators too can be reported to the Swell moderation team. "One of the best practices users have adopted is citing links and references to support what they are saying. It could be

Each platform has stringent community guidelines for moderating content seen as inciting hate or violence, harassing users, spreading misinformation or spam



A screengrab shows how Twitter Spaces

a good journalistic source. We give people the ability to do that. They can attach images. If they are talking about a (news) article, they attach links," Varadarajan says in a video call from San Francisco, US.

Every post on Swell is five minutes; it can include links and photographs. These bite-sized, podcast-type entries—called Swellcasts—can be heard at any time, making this an asynchronous format compared to, say, Clubhouse, which has realtime conversations. A user too can respond to a Swellcast any time-the comments can also be five minutes long. Every user on Swell also gets a personal website (at swellcast.com/yourusername) to share their public conversations.

Some moderators are mindful of the topic and duration of discussions. Faizan Patel, a travel and lifestyle photographer, regularly hosts rooms on Clubhouse, including a club for smartphone photography enthusiasts. "If it's too abstract, then listeners won't join in. People always notice a simple discussion on current events and topics," he adds. "We also try (to see to it) that nobody speaks for more than three-five minutes because then it

becomes one-way communication. These are some of the basic moderation rules that I follow." Moderators like Patel are even learning terms such as PTR, or "Pull to Refresh", which updates a room to show those who are next in line to speak or are still tuned in.

There may be takeaways from the way users moderate and express themselves on platforms such as Twitter Instagram and Facebook but audio social apps are a different ball game. Audio is the "next wave of communication", maintains Sumit Ghosh, co-founder and CEO of Fireside, an Indian audio social app launched in May

that also supports local languages. "I don't think this is a fad (the sudden

interest in audio apps)," he says. "As long as users are able to derive some value and learn new things from these audio social

More than a passing fad?

or two months, I have participated in different Clubhouse rooms—sometimes as a speaker, more often as a curious listener. Just a week ago, when Spotify launched Greenroom, users on Clubhouse were busy discussing what made this new app different, while trying them both in real time.

While Clubhouse has the first-mover advantage, every app that follows suit will fix earlier glitches and offer more features.

The topics of discussion on these apps vary. In some rooms, experienced journalists are checking in every week on young reporters, who share their learnings and doubts. Some rooms on e-sport have brought professional gamers, lawyers and gaming purists together for an engrossing

People are learning, building connections. Earlier this week, I spoke to TV presenter and cricket host Gaurav Kapur on his experiences while shooting the popular series Breakfast With Champions. It was a candid conversation.

These apps offer a sense of freedom. There is none of the pressure of being in front of a camera. You just bring your voice to the table.

But will these prove to be a passing fad? Eventually, when it is again safe to meet people, will these candid conversations continue to be as popular? Your guess is as good as mine. —NS

products, they will keep coming back." He does add that in the audio-to-audio format, users have to be careful about "what goes out there". "When you post something on Facebook or Twitter, it takes time to reach every user. You can even delete posts. But on audio social platforms, people are listening to you in real time. You

> cannot delete what you have just said."

Swell launched in India this month and, according to Varadarajan, has been welcomed by a younger audience that likes "spontaneity" and quick consumption of a "variety of content". "With very little engagement-you could be listening to someone's Swellcast oosts for just a week you can sense that people are building better connections. That is

the power of audio.

she says. "And yes, audio definitely brings in a lot more empathy and civility than you will find on text. I don't know what it is about the representation of humans in text but they don't carry their personality over as much as they do in audio."



Growth is

not just about digging in the heels. It's also about pivoting in tough times.

Growth is...On.



livemint.com


ive_mint

Place : New Delhi

f mint.live **Iivemint**

in livemint

Ensuring Business Continuity through Telecom & Digital Solutions







EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

	Standalone					Consolidated				
Particulars	Quarter Ended 31 March, 2021 (Audited)	Quarter Ended 31 December, 2020 (Audited)	Quarter ended 31 March, 2020 (Unaudited)	Year ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)	Quarter ended 31 March, 2021 (Audited)	Quarter ended 31 December, 2020 (Audited)	Quarter ended 31 March, 2020 (Unaudited)	Year ended 31 March 2021 (Audited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)
Total income from Operations	42,948	39,473	36,722	1,33,728	1,08,063	42,982	41,060	39,263	1,37,782	1,12,805
Net profit / (loss) (before tax & exceptional items)	4,102	9,370	7,772	19,461	23,044	4,088	9,412	8,011	19,718	23,406
Net profit / (loss) (before tax & after exceptional items)	4,102	9,370	2,842	19,461	18,114	4,088	9,412	3,081	19,718	18,476
Net profit after tax	2,720	6,934	2,100	14,041	13,835	2,721	6,966	2,279	14,245	14,107
Total comprehensive income	2,942	6,862	1,599	14,160	13,334	2,943	6,894	1,778	14,364	13,606
Equity share capital	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094	32,094
Other Equity	-	-	-	1,08,179	1,04,034	-	-	-	1,09,188	1,04,839
Earnings Per Share (Not Annualized for the Quarter Ended)					-					
(Face Value of Rs.10/- each)										
(a) Basic (in Rs.)	0.85	2.16	0.65	4.37	4.31	0.85	2.17	0.71	4.44	4.40
(h) Diluted (in Re.)	0.05	2.16	O CE	4 27	4 24	0.05	2 17	0.71	1 11	4.40

The above standalone and consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25th June' 2021. The Statutory Auditors of the company have conducted Audit of the financial results for the Quarter and year ended 31st March 2021.

PBT for the FY 2021 has been arrived at after considering provision for expected credit loss (ECL) of Rs. 8316 Lakhs in $comparision \, to \, Rs. \, 1251 \, Lakhs \, for \, the \, FY \, 2020.$

The Standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable

The above is an extract of the detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results are available on the Stock Exchanges website of BSE (www.bseindia.com/corporates). NSE (www.nseindia.com/corporates) and Company's website at www.railtelindia.com.

The Board of Directors in its meeting held on June 25, 2021 considered and recommended a final dividend @ 12% i.e. $Rs.\,1.20\,per\,share\,aggregating\,to\,Rs.\,3,851\,lakhs\,for\,the\,financial\,year\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,in\,addition\,to\,Interim\,1.00\,per\,share\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,Interim\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,is\,Interim\,2020-21.\,This\,final\,dividend\,Interim\,2020-21.\,Th$ Dividend of Rs. 1 per share already paid by the Company for the year 2020-21. The final dividend is subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting

For and on behalf of RailTel Corporation of India Limited

Puneet Chawla **Chairman & Managing Director**

DIN: 08303340

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD

Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023. Phone: 011-22900600, Fax: 011-22900699 Website: www.railtelindia.com; E-mail: cs@railtelindia.com; Corporate Identity Number: L64202DL2000G0I107905